

प्रेस नोट थाना खोराबार दिनांक 24-09-2020

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक नगर के मार्ग दर्शन में व क्षेत्राधिकारी कैण्ट के नेतृत्व में खोराबार पुलिस टीम को लगाया गया था। प्र०नि० नासिर हुसैन मय हमराह उ०नि० रविसेन यादव, उ०नि० पंकज कुमार सिंह, हे०का० संजय सिंह, कां० अभय यादव व हाक 29 के कर्मचारीगण कां० मुकेश कुमार सिंह व कां० नन्दन शर्मा के साथ देखभाल क्षेत्र रोकथाम जुर्म जरायम मे देवरिया वाईपास पर मौजूद थे कि जरिये मुखवीर खास सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति एक सफेद रंग के वोलेरो पीकअप जिसके बाडी पर पिले रंग के तिरपाल से ढका हुआ है से कुल 08 राशि गाय/बछड़ा वध करने हेतु देवरिया की तरफ आकर करजहाँ से होते हुए हाइवे NH-28 से होकर कुशीनगर होते हुए बिहार राज्य ले जायेंगे यदि जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते हैं इस सूचना पर विश्वास करके मुखवीर खास को साथ लेकर करजहाँ अन्डर पास के नीचे अन्डर पास के नीचे व आस पास खड़ी वाहनो का आड़ में छुपकर आने वाले पिक अप वाहन का इन्तजार किया जाने लगा कि कुछ देर बाद देवरिया की ओर एक पिक अप वाहन अन्डर पास के नीचे से मुड़कर कुशीनगर की तरफ चढ़ने वाले हाइवे मार्ग की ओर आता देख मुखवीर खास ने इशारा करके बताया कि साहब यह वही पिकअप वाहन जिसपर पशु तस्करो द्वारा पशुओ को लादकर गौकशी हेतु कुशीनगर होते हुए बिहार राज्य ले जाया जा रहा है बताते हुए हट बढ़ गया हम पुलिस वाले हाइवे NH-28 पर चढ़ने वाले मार्ग के आस पास खड़े ट्रक चालको के सहयोग से उक्त वोलेरो पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया कि वाहन पीकअप वोलेरो जैसे ही अन्डर पास के नीचे से होकर NH-28 पर चढ़ने के लिए मुड़ी कि पिकअप वोलेरो की गति धीमी होने पर पिकअप वाहन के बाया गेट खोल कर दो व्यक्ति अन्धरे का फायदा उठा भाग गये तथा वोलेरो पिकअप चालक उक्त वाहन को वापस घुमाने लगा कि हम पुलिस वाले दौड़ाकर घेर घार कर पिकअप वाहन के चालक को पकड़ लिया गया तथा जामा तलाशी लेते हुए नाम पता पूछते हुए पिक अप को पीछे मोड़ने के वारे मे पूछा गया तो पिकअप चालक ने अपना- नाम- पता सद्दाम S/O नवी रसूल ग्राम पोछिया मढीया चन्द्रावता थाना तुर्कपट्टी जनपद- कुशीनगर बताया तथा पिक अप वाहन जिस पर आगे व पिछे नम्बर प्लेट पर कोई नम्बर अंकित नहीं था तथा पिकअप की बाडी पर पीली तिरपाल बन्धा था मे क्या लोड है पूछने पर चालक सद्दाम ने बताया कि साहब पिक अप मे कुल 08 राशि गाय/बछड़ा लोडकर के कुशीनगर होते हुए वध हेतु विहार राज्य ले जाया जा रहा था। ततपश्चात उक्त चालक का जामा तलाशी ली गयी तो पहने पैंट के बाये तरफ कमर मे खुसा हुआ एक अदद देशी तमंचा बरामद हुआ। बरामदशुदा देशी तमंचा को सावधानी पूर्वक खोल कर देखा गया तो तमंचा लोडेड था सावधानी पूर्वक कारतुस को तमंचा से अलग किया गया। पकड़े गये व्यक्ति सद्दाम उपरोक्त की यह कृत्य अन्तर्गत धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधि० तथा 3/25 Arms Act का वोध कराते हुए मा० सर्वोच्च न्याया० तथा मा० मानवाधिकार आयोग के आदेशो निर्देशो का अक्षरशः पालन करते हुए समय करीब 21.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. सद्दाम S/O नवी रसूल ग्राम पोछिया मढीया चन्द्रावता थाना तुर्कपट्टी जनपद- कुशीनगर

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान:- 23.09.2020 समय 21.05 बजे, रामनगर कड़जहा अन्डर पास

बरामदगी - एक अदद बोलरो पिकअप व 08 राशि गोवंशीय गाय/बछड़ा व एक अदद एण्ड्रायड वीवो मोबाईल व एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस

अपराधिक इतिहास:-

क्र०सं०	मु०अ०सं०	धारा
1	718/2020	3,5,8 गोवध निवारण अधि० व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
2	719/2020	3/25 Arms Act

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी / कर्म० का नाम व नियुक्ती स्थान

1. प्र०नि० नासिर हुसैन थाना खोराबार गोरखपुर
2. उ०नि० रविसेन यादव थाना खोराबार गोरखपुर
3. उ०नि० पंकज कुमार सिंह थाना खोराबार गोरखपुर
4. हे०का० संजय सिंह थाना खोराबार गोरखपुर
5. कां० अभय यादव थाना खोराबार गोरखपुर
6. कां० मुकेश कुमार सिंह थाना खोराबार गोरखपुर
7. कां० नन्दन शर्मा थाना खोराबार गोरखपुर